



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार 27 मई, 2021
ज्येष्ठ 6, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
आबकारी अनुभाग-2

संख्या 951 ई-2/तेरह-2021-01-2021
लखनऊ, 27 मई, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-37

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) की धारा 30 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल आदेश देती हैं कि वर्ष 2020-2021 या उसके भाग के लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) एवं समुद्रपार आयातित मदिरा पर नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल फीस अधिरोपित की जायेगी।

1- देशी मदिरा-

क्र०सं०	देशी मदिरा की तीव्रता	धारिता	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल फीस (रुपये में)
1	36 प्रतिशत वी/वी	200 एम.एल.	5/-
2	42.8 प्रतिशत वी/वी	200 एम.एल.	5/-

2- विदेशी मदिरा-

क्र.सं.	विदेशी मदिरा की	बोटलों की धारिता	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल फीस
---------	-----------------	------------------	----------------------------

	श्रेणी	(एम.एल.में)	(रुपये में)
1	इकोनामी	180 एम.एल.तक	10/-
		180 एम.एल.से 500 एम.एल.तक	20/-
		500 एम.एल.से अधिक	30/-
2	मीडियम	180 एम.एल.तक	10/-
		180 एम.एल.से 500 एम.एल.तक	20/-
		500 एम.एल.से अधिक	30/-
3	रेगुलर	180 एम.एल.तक	20/-
		180 एम.एल.से 500 एम.एल. तक	30/-
		500 एम.एल.से अधिक	50/-
4	प्रीमियम	180 एम.एल.तक	20/-
		180 एम.एल.से 500 एम.एल.तक	30/-
		500 एम.एल.से अधिक	50/-
5	सुपर प्रीमियम	180 एम.एल.तक	30/-
		180 एम.एल.से 500 एम.एल.तक	50/-
		500 एम.एल.से अधिक	100/-
6	स्काच	180 एम.एल.तक	50/-
		180 एम.एल.से 500 एम.एल.तक	100/-
		500 एम.एल.से अधिक	150/-
7	समुद्रपार आयातित	180 एम.एल.तक	100/-
		180 एम.एल.से 500 एम.एल.तक	200/-
		500 एम.एल.से अधिक	400/-

3- बीयर-

क्र० सं०	बीयर की श्रेणी	बोतलों/केनों की धारिता (एम.एल.में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल फीस (रुपये में)
1	स्ट्रांग/लैगर	500 एम.एल.तक	10/-
		500 एम.एल.से अधिक	20/-
		10 लीटर केग	200/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-
2	समुद्र पार आयातित	500 एम.एल.तक	20/-
		500 एम.एल.से अधिक	30/-
		10 लीटर केग	250/-
		20 लीटर केग	500/-
		20 लीटर से अधिक केग	750/-

4- वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय (एल.एल.बी)

क्र० सं०	मदिरा का प्रकार	बोतलों की धारिता (एम.एल.में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल फीस (रुपये में)
1	वाइन	500 एम.एल.तक	50/-
		500 एम.एल.से अधिक	100/-
2	एल.ए.बी.	समस्त धारिताएं	20/-

आज्ञा से,
संजय आर० भूसरेड्डी,

अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 951 E-2/XIII-2021-01-2021, dated May 27, 2021 for general information:

No. 951 E-2/XIII-2021-01-2021

Dated Lucknow, May 27, 2021

IN exercise of the powers under section 30 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to order that for the year 2020-2021, or part thereof, the Special additional consideration fee at the rates specified in the Schedule below, shall be imposed on Country liquor, Foreign liquor, Beer, Wine, LAB and Overseas imported liquor.

1. Country liquor-

Sl.no.	Strength of Country liquor	Capacity	Special additional consideration fee (In Rupees)
1	36 % V/V	200 ml.	5/-
2	42.8 % V/V	200 ml.	5/-

2. Foreign liquor-

Sl.no.	Category of Foreign liquor	Capacity of bottle (In ml.)	Special additional consideration fee (In Rupees)
1	Economy	Up to 180 ml.	10/-
		from 180 ml. up to 500 ml.	20/-
		more than 500 ml.	30/-
2	Medium	Up to 180 ml.	10/-
		from 180 ml. up to 500 ml.	20/-
		more than 500 ml.	30/-
3	Regular	Up to 180 ml.	20/-
		from 180 ml. up to 500 ml.	30/-
		more than 500 ml.	50/-
4	Premium	Up to 180 ml.	20/-
		from 180 ml. up to 500 ml.	30/-
		more than 500 ml.	50/-
Sl.no.	Category of Foreign liquor	Capacity of bottle (In ml.)	Special additional consideration fee (In Rupees)
5	Super Premium	Up to 180 ml.	30/-
		from 180 ml. up to 500 ml.	50/-
		more than 500 ml.	100/-
6	Scotch	Up to 180 ml.	50/-
		from 180 ml. up to 500 ml.	100/-
		more than 500 ml.	150/-
7	Overseas imported	Up to 180 ml.	100/-
		from 180 ml. up to 500 ml.	200/-
		more than 500 ml.	400/-

3. Beer-

Sl.no.	Category of Beer	Capacity of bottles/cans (In ml.)	Special additional consideration fee (In Rupees)
1	Strong /Lager	up to 500 ml.	10/-
		more than 500 ml.	20/-
		10 Litre Keg.	200/-
		20 Litre Keg.	400/-
		more than 20 Litre Keg.	600/-
2	Overseas imported	up to 500 ml.	20/-
		more than 500 ml.	30/-
		10 Litre Keg.	250/-
		20 Litre Keg.	500/-
		more than 20 Litre Keg.	750/-

4. Wine/LAB-

Sl.no.	Type of Liquor	Capacity of bottles (In ml.)	Special additional consideration fee (In Rupees)
1	Wine	Up to 500 ml.	50/-
		more than 500 ml.	100/-
2	LAB	In all capacity	20/-

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 51 राजपत्र-2021-(96)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 4 सा० आबकारी-2021-(97)-100 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।